

REF.: BBL/SECT/ To, The BSE Limited Department of Corporate Services, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400001

The National Stock Exchange Of (I) Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G-Block,

May 30, 2024

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) <u>Mumbai - 400 051</u>

# Sub.: Published copy of Audited Financial Results for quarter and year ended on 31<sup>st</sup> March' 2024 in compliance of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith published copy Audited Financial Results for quarter and year ended on 31<sup>st</sup> March' 2024 in compliance of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015.

The said result was published in Financial Express (English) edition and in Aaj (Hindi) edition newspaper on 29.05.2024.

Kindly take the above documents on the records and acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully, For **BANARAS BEADS LIMITED** 

(R.K. SINGH) COMPANY SECRETARY Encl. As above

### 131015 करंट लगने से बिजली

मिस्त्री की मौत

सूरजकुण्ड

सुरजकुंड पहुंचकर विजली ठीक करने के लिए ट्रांसफामर पर चढ़ा इसी दौरान अचानक विद्युत शुरू

हो जाने के कारण नौशाद अहमद

झटका खाकर सीधे नीचे गिर पड़ा आनन-फानन में नौशाद अहमद को मंडली चिकित्सालय ले जाया

गया जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे

👩 उत्तर मध्य रेलवे

त की जाती हैं। कार्य व

तंछनीय आधारः लिल नोटः १. उत्तनलाइन १ की जा सकती है। २. उपर्युत्त ई-निविदा व

ज की ज

ई-निविदा सूचना

৯৯০০ কৰা নাম প্ৰদানানা কা এনাই ?। প্ৰাৰ্থ বা বিষৎল দিন্দ মহনং উ-বিষয় খ বিষয় খ টা বিচম তেনেও নাম বিষয় খন্দ কৰা বিষৎল দিন্দ মহনং উ-চা বিচম তেনেও নাম বিষয় বিজয় বা বিষয় স্বায় বিষয় বা বেষয় বা বেষয় বা বিষয় বা বেষয় বা বিষয় বা বিষয় বা বেষয় বা বেষয়

ACR Separtheestrakaiway 🚺 North central railways www

🔘 उत्तर मध्य रेलवे 🖓 🕮

ई-टेण्डरिंग निविदा सुचना

निविदा खुलने की है प्राण विशित्य प्राप्त स्वी

मत चोषित कर दिया।

विक्रिय मं

## ४

## सड़क दुर्घटनाओंमें महिला समेत दो की मौत जंसा और रोहनिया में दर्दनाक हादसा, दो घायल

लक्सा थाना क्षेत्रके सूरजकुण्ड इलाके में मंगलवार को ट्रांसफार्मर पर ज्वाइंट जोड़ते समय करंट प्रवाहित होने से संवदा बिजली मिस्त्री को मौत हो गयी। जानकारी रोहनिया और जंसा थाना क्षेत्रमें संगठानमा आर जाता भागा खत्रम मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटनाओं मं महिला मसेत दो लोगों की गौत हो गयी जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये। जानकारी के अनुसार रोहनिया भागा क्षेत्र के मोहनसराय चौराहा के अनुसार सुरजकुण्ड इलाके में बाधित चल रही विद्युत आपूर्ति को रिधत ओवर ब्रिज पर मंगलवार को रिव्यत आवर व्रिज पर मंगलवार का सुबह लगभग ६.३० वजे मायके से संसुराल जाते समय ट्रक की चपेट में आने से कपसेटी थाना क्षेत्र मोकरमा डलाके में घटना दीक करने के दौरान २७ वर्षीय संविदाकर्मी बिजली मिस्त्री को करेंट लगने से अखेत हो गया। इसके बाद उसे मंडलीय चिकिल्सालय कबीर घौरा ले जाया दौलतिया निवासी बाइक सवाग पुलावया गियासा व्यवक सपर सुनीता पटेल (३० वर्ष) को मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी। बाइक चला रहे भाई अनिल पटेल उर्फ परत पटेल (३४ वर्ष) तथा बेटा आदित्य पटल (३४ वर्ष) तथा करेंटो आदरन (१२ वर्ष) घायल हो गया। घटना को सुबना पानर मौके पर पहुँचे मोइन्सराम पुलिस चौकी के दागेग राज दर्पण तिलारी ने मृतिक सुनीता पंटेल के शब को अपने कल्वो में लेकर पोस्टमार्टम हेंदु भेजा। और घायलों को बगल के निजी अस्पताल गया। वहाँ पर उसे डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूरजकुंड में विद्युत आपूर्ति ठप चलने के कारण जनता जाहि-जाहि कर रही थी जिसके बाद जनता की लगातार शिकायत के बाद बेनियाबाग उपकेनद्र से जुड़ा संविदा कर्मी नौसाद अहमद २७ वर्ष लक्स में इलाज के लिए भर्ती कराया। प्राप्त

का शव मिला सूचना प

विनांकः 27.05 an

mit e

G2.

निवासी रमेश कुमार पटेल की पत्नी सुनीता पटेल अपने मायका रोहनिया थाना क्षेत्र के करनाडाड़ी में २५ मई को अपने भाई सुनील पटेल की शादी में शामिल होने के लिए आयी शादा में शामिल होने के लिए आया हुई थी। शादी की रश्म पूरा होने के बाद सुनीता पटेल अपने बेटे आदित्य के साथ भाई अनिल उर्फ भरत पटेल के साथ मंगलवार को सुबह बाइक से अपने ससुराल जा रही थी जिसके दौरान मोहनसराव हाईवे स्थित ओवर ब्रिज पर सड़क खुराब होने की वजह लिज पर सड़क खराब होन का नजाइ से अनियंत्रित ठोकर बाइक सड़क पर गिर गया जिसके पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक सुनीता पढेल को रौदते हुए फरार हो गया। जिसके दौरान भाई अनिल कूमार उर्फ भरत पारेण नाव जानल जुनार उक्त गरा पटेल तथा पुत्र आदित्य घायल हो गये। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पति रमेश राजमूनि पटेल सहित मायका तथा

जानकारी के अनुसार कपसेठी थाना क्षेत्र के मोकरमा दौलतिया गांव ससुराल पक्ष के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। हाल हा गणा। जंसा थाना क्षेत्र के हरिदासपुर जेल्लाय की जसा आग कर के लग्भायुर रिंग रोड केल-दो पर सोमवार की देर रात तेज रफ्तार बोलोरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गट्टे में पलट गयी घटना में चालक की मौत हो गयी। बताया जाता है कि उक्त थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव निवासी रामाश्रय सिंह उर्फ करिया सिंह (४५ वर्ष) अपने बोलेरो से तिहरू ( हेवे, येथे) जपेष योलिंस स हरसोस गांव की तरफ गया हुआ था जहां से वापस लौटते समय तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर स्मि

रोड के किनारे गड्ढे में पलट गयी तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण जीवाय युगिवर आवराज के प्रतान मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना जंसा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर रूप से घावल अवस्था में ट्रामा सेंटर भिजनाया जहां इलाज म झुना साइर निजनाया जहा शराव के दौरान उसकी माँत हो गयी। मृतक एक पुत्र एवं एक पुत्री का पिता बताया जाता है जिसमें पुत्री की शादी हो चुकी है। बता दे की मृतक की ेका बीते १० दिन में पूर्व मयिक मौत हो गयी थी असामयिक मौत हो गयी । लगातार हुए घटना से परिवार



PARTICULARS al Income from Operations t Profit / (Loss) for the period (before tax

ceptional and/or Extraordinary items) t Profit / (Loss) for the period before tax (after coeptional and/or Extraordinary items) at Profit / (Loss) for the period after tax onal and/or Extraordinary items) nsive Income for the period mprising profit/ (Loss) for the period (after tax) d Other Comprehensive Income (after tax)) uity Share Capital 76.63 275.08 57.31 254.34 661.41 661.41 661.39 661.41 erve (excluding Revaluation Reserve) as show 4622.45 4622.45 4501.89 4501.89 1.15 4.15 0.86 3.83 the Audited Balance Sheet of the previous year ming Per Share (of Rs.10/- each) Basic & Diluted

4.15

arming here strate (or Rs. 104 each) issues biblieted in the strate of the strate of the strate of the detailed format of unaudited financial result filed with ock exchanges under Regulation 33(3) (c) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure quirements) Regulation 2015 as amended and prepared in accordance with IND AS. Let full format of Quarterty Financial Result are available on the Bombay Stock Exchange bibliete (URL: www.beindia.com/corporate), the National Stock Exchange website (URL: www.nscindia.com/corporate), and on the Company's website (URL: www.beindia.com/corporate), and on the Company's website (URL: www.beindia.com/company) and the previous year / period have been regrouped wherever considered cessary.

... 

By order of the Board For BANARAS BEADS LTD. Sd/-(ASHOK GUPTA) man & Managing D

पत्नी







एवं उनकी ओर से निम्नलि	ाइन/उत्तर मध्य रेलते, प्रयागराज खित निर्धारित कार्य के लिये ई-नि जे तक अप्मतित की जाती है। कार्य	कुमार ने बताया कि मौत कैसे हुई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद	सूचना-सूर्ग मेरे पासपोर्ट SONI W		
निविदा नं: 2024-04		PCT: ₹ 16,86,93		पता चलेगा कि मौत कैसे हुई हैं।	है। जिसे अ
वयाने की रकमः १९,	93,500/- कार्य समापन	की अवधिः १२ म	181	ज्ञानमण्डल प्राइवेट लिमिटेड	
कार्यों का विवरणः प्रयाग	लाज मज्हत के शिकोहण्याद एवं	मैनपुरी स्टेशनो	पर असत भारत		के स्थान प
स्टेशन योजना के अन्तर्गत	12.0 मीटर चीडे फुट ओवर ब्रिज	का प्रावधान।		के लिए ज्ञानमण्डल यंत्रालय, संत	VERMA
आधार, वेभी सिविस ऑफ फैबिकेसन एण्ड एसी टावुम आफ स्टीम नोटा । उपरोक्त हैनि । म्राक्ड gow.in पर समय असनवा में 12 - उपरोक्त कि आसवा में 2 - प्रस्तोक कि असमी 19 पर प्रयोजन हेन् उट. C.A. ब्राय जारी डिजि असमी 2 - निविदा की विवारणीय है। वरे राजा क ने उस पर जिसार नहीं संसान किये आने वाले संसान किये आने वाले	भिग 16.06.2024, निर्मित्सर का इतिस्वान्त का 2024, निर्मित्सर का इतिस्वान/तर्गिधेंग ऑफ स्टोल/त धर्माडिट द्विज गईर पर्वा र रेश्वे, विद्य जा युगी देवरण निविधा 14.300 स्वांत के निविध कुलने देवर के तो पाहिन्दे कि उपने जा ते करने को पाहिन्दे कि उपने जा देवर के तो पाहिन्द का राजा के देव के तो पाहिन्द का राजा कि के प्रा जा सिडिटल स्वाहाजित कि प्राप्त निविध स्वार्थ किसी के प्रा जा सिडिटल के स्वार्थ किसी के प्रा जा सिडिटल के स्वार हिला प्रा के स्वाराजा के स्वार हिला प्रा के स्वाराजा के स्वार हिला	इंक्रांजीब्ल्यूशन 3 अपेग्रिंगट फुट 3 हाहवे/लोकान ब प्रायत्र सहित ते हे तिथि दिसांक 1 अन्य रूप में हिंह. पाली 1 T. Act-2 स्टान्ड की बेबगा फाइनेन्सिप्स कर्डा/स्टिर हेड बि वासित होने चाहिंट वीकार की जायेग	र्शेभ आइटम्स तेवर किल आर हिंद्रा बसाइट www. 8.04.2024 तक बेकिस नहीं की 000 के अन्तर्तन की 000 के अन्तर्तन की एट पंद्र सेलाम है र पदि संलाम है राधा जायेगा। 4- 1) 5- वया ने की री। 6- किसी भी	कखेर पार्ग, बारागमा से - ओस प्रकाश जाम डाग सुरित और प्रकाश जाम डाग सुप्रत बिकम मुख, ख्वानेख कार्वकर्ता मायदुत - व्यक्तवर्ती पाण्यति नावडू। गोरख्यपुर: वंक रोड, प्रयाशाक - अलंडर रोड, बानपुर: गंदसप्रण गांधे रोड, बाराग: माठस्था गांधे रोड, बोरती: रोड नं ३ परसाखेड, प्रटना: फ्रेजर रोड, रॉवी: नावडून, प्रज्यादिय रोड नं ३ परसाखेड, प्रटना: फ्रेजर रोड, रॉवी: नावकुन, प्रज्यादेव्य प्रति, वि	याजार, जी समझा जाय 'आज' में कमला बालि कोट के सरह बुरान का का बनाइ स्थल
प्रस्तुत की जा सकती है। निपारिक जी, एस. टी. एव 2022 मान- 16 कैंपत 10 व साथ अनिवार्थ क्य से वबनुषार अविवारणीय हे स्ट बाका साध्यायन्त्र क् इ-सारण मिडिया बुक्स स	तमध्य रे	प्लावय/ठेकेवास ३- निविधावाता तवस्थक वस्ताके निविध अपूर्ण म म सामे स्वि दिन	तमय-समय पर को जी सी सी ते को निविधा के नी जायेंगी एवं 91524 FA 91524 FA	वर्ष-२०४ घुर्स ८१३६०८९३१०१६०० आर. एर. आई. रिन्दुवन वं. २०२६ फोन-२३१३९८१ से २३१३८७ कह E-Mail-ajoranasi 1920@gmil.com Websile : www.ajhirddebiy.com पी. आर. वी. अधिनिवम के अन्तर्गति समाचार पवन के तिएग, ओम प्रकाश शर्म विममेदार होंने तथा समस्त विवाद बाराणसी न्यायालन के अपने होंग.	वासांद्रन पत्री वासांस्तर पत्री र वास वापती जिवियेछ बुवाय विवियेछ बुवाय की दश्व में य मवापतन व यो यो पत्रा यो यांचा साधारण स ज काट करें। परसहस न
9001: 2015 प्रमाणित इका	्री निम्नलिखिल मदों के लिए ई-प्रायण संक्षिप्त विवरण		। करते हैं। निविद्य खुलने	BANAR	
11.			र्क तिथि	9. Numeriol-	rt House Reo
1 30242643	वर्टनालेख करीक गाँवा वेजिल	045 200	17 06 2024	Dond 9 Hand Off	on + A 4 Indu

ate : 28.05.2024

लिय

ч.,				क लाग		8124
1	30242643	स्टॅनलेस स्टीत यॉंच बेसिन	445 <del>न</del> ग	12.06.2024	13	¥8
2	30242782	वॉटर टैंक एसेम्बती	19 <b>नग</b>	19 707 12.06.2024		STD. 1
3	30242783	लेक्टोमी होर कमलीट	30 नग	20.66.2024	183	ract o
4	RC2321428	वरा होतहर असेवती	268 नग	19.06.2024	10	T
5	40243241	डिरचार्ज/उधिंग राह असेवली	315 नग	04.07.2024		
Б	40241539	गैंटवनाइज्ड स्टील एम-१८ बोल्ट	82659 70	19.16.2024	SI. No.	
7	40241626	एस.एस. वायर रोप डाया ८.६५एम.एम.	1070 मग	19.06.2024	PRU.	
9	40241591	गियरक्षैस ईंड ऑपरेटेंड पुलिंग एंड डिफिटेंग ग्लीन	157 नग	19.06.2024	1.	Tota
9	40241034	पोलीमाईड सीर (नोमेक्स टाईंप 410)	101 कि.म	18.06.2024	-	Exc
10	70243501	वी यू बेरह जेन्सन बच्	33647 सीटर.	20.66.2024	3.	Net
11	70243411	भेट एनामेल सिंघेटिक सिमनह रेड	නෙසම නිසැ	27.06.2024	1	Exc
12	80245022	पलुइड एच ताई ही आर वॉटर	. 2704 लोटर	24.06.2024	4.	Net
13	642450384	इन्ह प्रम, ताझोसन मोटर	717 नग/एमटीआर	27.66.2024		Exc
14	84225047	हिस्क क्लैंप रोलर	12 तज	24.66.2024	5.	Tota
15	632351990	ন্দ্ৰীহাত ধৰণ বঁট্না প্ৰাঁফ 240mm নিহয় 10mm যিক, 1:8,5	1401 स्टेट	26.06.2024		[Co and
(8	70243003	एम एस वेदिन एडेक्ट्रेंड्स क्लस इ.१ सड्उ ४ ४ ४५० एम एम	763192.49 <b>Å</b> EK	26.66.2024	6. 7.	Eq. Re:
17	30242434	सेट ऑफ तेबोटी होर अरेंजमेंट	200 vte	19.06.2024		in t
18	36241858	संकेण्डरी तेशिंग देन कम्प्लीट	950 <b>नग</b>	19.66.2024	8.	Ear
19	30232969	विट फॉर एलएठवी ब्रेक कॅलिपर	129 नग	20.06.2024	N	otes
20	202335288	मौटर फॉर मशीन रूम कोवर	16 नग	18.06.2024	17	stoc
21	20233771 위	ई-टाइम सेपटी क्रेतेल:	200 नग	18.06.2024		Req
22	20241314	ब्रेक स् (५० एमएम)	24813 701	19.06.2024	2	The
23	20242053	मॉडिफाइड ट्रांजिशन काू कपलिंग	233 नग	20.06.2024		web
24	40241153	ਲੇ ਸੇ-ਟੇਸੇ-ਰ ਰੇਡ ਦਰਿਡ ਬੈਂਟਦੀਰ 110 ਹੈ, 75 ਦਰਬਦੀ	56 RC	25.06.2024	3	Cor

ोठः उपरोक्त सभी ई-प्रापन निविदाओं का पूरा विक्लण IREPS देवसा tps://www.leps.gov.in पर उपलब्ध है । निविदाओं में किसी भी बदरतार / शुद्धि-पत्र के प्रयम इस वेडसाईट को नियमित रूप से देखें। समाचार-पत्र में कोई अक्षम से शुद्धि-पत्र / परिव 👔 North central railways 🕀 www.ncz.inda aysaanin 👌 iin X & CPRONCE

तेज रफ्तार बस खम्भे से टकराकर पलटी, एक की मौत, १५ घायल चौबेपुर इलाके में दर्दनाक हादसा, लोगों की जुटी भीड़

पर बहुत तेजी से चल रही थी। यात्रियों ने बताया टायर फटने से

वाजवा न कामा धनर कटन स बस पलटी। मृतक की पहचान आजमगढ़ के सिंहपुर सरैंचा निवासी नरोत्तम चौहान के रूप में

हुई है। शय को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं बस में सवार

राबी (५ वर्ष), श्याम लाल यादव (३५ वर्ष), मनीष यादव (२२ रावा (५ वर्ष), स्वाम लाल सादल (३५ वर्ष), मनीष यादव (२२ वर्ष), चंडेसर, बदामी देवी (६० वर्ष), चंडेसर, बदामी देवी (६० वर्ष), चंडेसर, बदामी देवी अन्य को भी हल्की चोट आयी है। बस में १५ से अधिक लोग सवार थे।

चौबेपुर थाना क्षेत्रके ठगापुर पावर हाउसके समीप मंगलवार को तेज रफतार बस खम्भेसे टकराकर पलट जाने से एक खत्री की मौत हो गयी जबकि बस में सवार १५ लोग खायल हो गये। घटना की सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त

वाराणसी,२९ मई, २०२४



सारनाथ डाक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौकेपर पहुंचे और क्षेत्रीय लोगों की मदद से बसमें फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें एम्बुलेन्स की मददसे अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सभी को नरपतपुर सीएचसी पहुंचाया जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। यही गट से वाराणसी मार्ग

#### लिपिक को पीटने के बाद उसकी पत्नी को जबरिया उठा ले गये मायके वाले

रामनगर। स्थानीय थाने की सूंजाबाद पुलिस चौकी अंतर्गत सोमवार की रात्रि में लोक निर्माण में अपने पिता कैलाश गाँड की मौत के बाद मृतक आश्रित कोटे में लिपिक की नौकरी पाने वाले एक न (सारेक का मानर) नान पास एक लिपिक को घर में घुसकर मारने पीटने के बाद उसकी पत्नी के मायके वालों ने उसकी पत्नी को ज्यारिया अपने साथ लेकर चले गए। जिसके अपने साथ लेकर चल गए। जिसक बाद थाने पहुंचे लिपिक ने घटना की तहरोर पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। इस संबंध में मंगलवार को थाने पहुंचे लिपिक के घर वालों ने बताया कि अजय कुमार उर्फ बुलबुल मौड़ का बच्छांव निवासी राजेंद्र प्रसाद उर्फ भीम की पुत्री प्रियंका से उसका विवाह हुआ था। वह शारीरिक रूप णुआ था। यह सातारक कर ण रूप से फिट नहीं थी। । यह भी बताया कि विवाह के बाद चिकित्सकीय जांच में उनको पता चला कि उसे मासिक धर्म नहीं आता जिसके चलते उसको कोई

टक्कर में चालक घायल इरहुआ। बझगंव थाना क्षेत्र के हरहुआ रिंग रोड फेज एक पर सोनभद से पिट्टी लादकर मजु जा रही डंपर जैसे ही प्रतापपट्टी गांव के समीप पहुंची तभी अचानक एक कार को मोड दिया कार को बचाने के चक्कर में टेलर चालव ादन करि का बचाने के प्रकार में पुरार प्रताक कुलदीप कुमार निवासी सुल्तातपुर डेंसर को रंग सड़ड जाकर कार को बचा दिव जैसे हो ट्रेलर थोड़ी सी आगे बड़ी तभी समने से आ रही आटो को देखा उसको बचाने के चक्कर में बालक वापस फिर डिवाइडर पर डंकर बढ्डाकर अपनी लेन की तरफ डंकर लेकर आ गया और डंफर बीच रोड में खराब हो गया। जिसमें था। आटा रिक्सी आर माटर साइकिल से पहुंचे उसकी पत्नी के मायके वालों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट किया और उसकी पत्नी को जबरिया लेकर हरहआ से संदहा की तरफ बाने वाला सेड पूरी रुष्ठुमा ए सरका का तरफ बाने पाता पाठ पूरा तरह ब्लाक हो गया। जिसके चलते हरहुआ से संदर्श की तरफ जाने वाली सभी वाड़ियां रांग संहड से बाने लगी। सोनभद से गिट्ठी लोड कर उत्तरण कर्मा का जनारणा एकर चले गए। जिसके बाद वह धाने पहुंचा और घटना की तहरीर पुलिस को दी। जिसके आधार पर पुलिस संदश बाल मंडी जा रहा टेलर चालक विपरित सहड से जा रहा था। प्रतापपट्टी गांव के समीप रेलवे जोवरज़िल पर जैसे ही पहुंचा तभी सामने से आ रही तेज रफ़्तार ट्रक से आयने-मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि वह सामने जोरदार भिडंत हो गयी जिससे टेलर अपने साथ जॉइनिंग लेटर भी लेकर जली गयी है, जो उसके पति को सामन भारतर 1966 हर नेथा जनसर ट्रलर बालक बिर्वेंद्र यादव (३५ वर्ष) निवासी सारिकपुर पचरुळी सियान बिहार ट्रेलर में फंस एवा बिस निकालने के लिए ग्रामीणों ने अथक प्रयाम किया लेकिन ट्रेलर का अगला नौकरी ज्वाइन करने के लिए विभाग की ओर से मिला था। चरहाल उसके पति ने नौकरी ज्वाइन कर लिया है। हिस्सा बरी तरह चिपक गया था।

### विमानमें बम की सूचना पर मची अफरातफरी

विमान में बम है जिसको लेकर प्रवरपोर्ट अधिकारियों में अप्सा तप्सी

मिली

वावतपुर। इंडिगो एयरलाइंस वाबतपुरा डाडणा एवरलाइस की विमान सख्या ६ ई २२११ दिल्ली एवरपीर्ट से वाराणसी एवरपीर्ट आने वाले विमान मे मंगलवार को सुबह लगभग पांच बजे अपने निर्धारित समयू से १७६ वात्रियों को लेकर वाराणसी के लिए उड़ान भरने जा रहा था कि विमान के वाशरूम के अंदर एक टिशू पेपर पर लिखा मिला कि ३० मिनट के भीतर विभान को बम क्लास्ट कर उड़ा दिया जायेगा। जिसकी सूचना मिलते ही विमान में सवार सभी बात्रियों अफ्सा तफ्सी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। विमान में सवार वरू मेंबरों ने अलर्ट जारी करते हुए विमान मे सवार सभी यात्रियों से विमान से उतरने का अनुरोध किंबा इतना सुनते ही विमान अफरा तपरी की स्थिति पञ हो गयी। कुछ यात्रि इमरजेंसी ! से बाहर निकलना जुरू किया।

#### महेशपुर में युवक का मिला शव

महुवाडीह थाना क्षेत्र के महेशपुर स्थित एक खंडहर नुमा मकान में विश्वदासपुर नियासे ३० वर्षीय आकाश राजभर नामक युवक का सब मिलने से क्षेत्र में हड़कर मच गया। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार आकाश नश्रे का आदती था। भटना के बाद पत्नी पूजा का रो-रो कर बुरा हाल था। मृतक से एक नौ वर्षीय पुत्री रितिका एवं छह वर्षीय पुत्र कल्सू है। महुवाडीह थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने चताया कि मतक नज्ञे का आदती था।

### मेजिक से बाइक की टक्कर, तीन घायल बौबेपुर। क्षेत्र के राजवारही अंडर

पास के समीप मंगलवार के दोपहर पति के समाप मगरपतार के प्राप्तर मैंजिक एवं बाइक में आगने-सामने टक्कर हो गयी। जिससे तीनों काईक सवार युवक गंभीर रूप से मायल हो गए। बाईक सवार सभी सिधीना (गाजीपुर, बहदिया) के निवासी बतायें गए हैं। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार की की स्थिति उत्पन्न हो गयी। विमान में दिल्ली एयरपोर्ट से वारणसी आने बाले विमान में अम की सूचना मिलते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ बूआरटी दस्ते के यम को धमकी का असर देखने को पन को पमको को असर दखन को मिला दिल्ली से वाराणसी उड़ान भरकर आने वाले कई विमान पर अपने निर्धारित समय की अपेक्षा देर से विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दिखायी दे रहा है कि विमान के जवानो के साथ बम डिस्पोजल दस्ते जनना के साथ बन जिल्लानस एस की टीम को तत्काल मौके पर बुलाया गया। विमान की गहनता से जांच पड़ताल की गई लेकिन विमान में संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुबह बॉशरूम में पावलट को एक टिश् पेपर पर लिखा मिला की विमान को इमरजेंसी दरवाजे से यात्री बाहर को इमरलसी दरवाज से योज बाहर को निकाला जा रहा है। साथ ही विमान में इमरजेंसी अलाम बज रहा है। इस संबंध में एवरपोर्ट निर्देशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि दिल्ली से बुराणसी आने बाले विमान में बम् बम से ३० मिनट के भीतर बम से उडाने की धमकी भरा मिला टेस् उडान का वनका मरा मरा मरा दस् पेपर मिला। जिसकी सूचना चालक दल के द्वारा तत्काल एवरलाइंस को दी गई वायरलेस सेट पर प्रसारित वाराणसा आग वाल विमान में बम को सूचना मिली थी। विमान को जिसकी जांच पड़ताल की गयी लेकिन विमान में कोई सॉदेग्ध वस्तु होने लगा की दिल्ली से वाराणसी के नहीं मिली है। किसी के द्वारा शरारत

### प्रेमी से विवाह के लिए नव विवाहिता ने छोड़ा पिया का घर

की गयीं है। जिसकी जांग रही है। और काररवाई की

यसनगर। विवाह के मात्र चांच दिन कह ही नई नवेती दुल्हन पर अपने पुराने आरिक के प्रेम को ऐसी खुमार्ग चुदी को उसने आपने पिया का पर ही छोड़ दिया और वह अपने मामके चली अर्ड। क्रांत उसने अपने पुराने आरिक से विवाह करने के लिए विद पकड़ लिया। जहां त्यरक आरिक ने उसने विवाह करने से एक्सार कर दिया। वह मंगलवार को प्रतः थाने पूर्वम अर्ज अपने प्रेस के लिदद हरारी दिया किया पर पुलिस ने उसके पुराने को प्रिंग को पूर्वम से लिया । एस से स्वेध में मामारा को साहता के लिए जिस प्रेम की क्रिक्स का स्वार पंचाया करते रोग गए। इस संबंध में मामारा जाता है कि चर्जना के लिए पुलिस के सामक शंवी पंचाया करते रोग गए। इस संबंध में मामारा जाता है कि चर्जना के लाह राज्य के लाह प्रत्या का क्र पंषणत करते देखे गए। इस संघंध में बातारा जाता है कि चोती जनगर के गिकस्टपुर परिवाग जिल्ला एक चुकते के सार्वेषणकों राधे देगा गंव में किल अपने भना के पता रहा थी। जहां उसका अरगे पहेंसी मात्रा के लड़के से प्रेम प्रांच युरू हो गता। विसको तिका वर्ष का विचार हुना उसके बाद मातता सुगुरू समझौते के बाद आसस में सरवा दिया गता। और दुकती उसके पात के प्रांस में ता के लित के बा चासर भंगे दिया गया। बहां हारी रूर खंकी उसके पात के प्रांस में ता के लित के बा चासर भंगे दिया गया। बहां हारी रूर खंकी उसके पात के बाद के बाद के अदिरिय धाल अर्थनात प्रेसी आधी से साथ नियंका में याथा। विद्या के बाद खब हर का स्मारु गों दे आई फेली ने उसके प्रांस में प्रेय का प्रेया खा कि बाद खरत का समारा समुराता चे ती आई फेली ने उसर प्राप्त का का प्रेया खात प्रवादा कि खड़ जरनी मां कोरो में साथ नियंका का प्रेया का प्रार्थ के देशा कर में ने साराय का आधी का के प्रार्थ भी की के ते के स्प्र स्पत्त वाह प्रेंगी से विवाह के लिए वहां से सापके चली आईं। जम उसके प्रेंगी ने उससे विवाह करने से इनकार का रिपा तो पढ़ मंगलवार को वहां के पाने पहुंची और उसने अपने प्रेंमी के विद्व बहरोंग रिपा। जिसके अलाग पर पुलिस ने उसे विप्रसात में ने लिला। थाने पहुंचे रोनें पहां को ओर से पुलिस की मौजूरी में सुजल समझी का भाषीपत्र प्रतास चला रहा था।

घायल श्यामलाल यादव ने बताया कि बस चिरैयाकोट से चाराणसी के एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोपहर एक बजे के करीब प्राइवेट बात्री बस यूपी ६५डीटी ८५७३ चौबेपुर के अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराकर लिए चली थी। ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में क्रस चला रहा था। अचानक उगापुर में पावर हाउस पास मोड़ पर बस का टायर तेज सङ्क के किनारे गड्ढे में पलट गयी। जिसमें घायलों को नरपतपुर प्राथमिक सेल स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करावा जा रहा है और मृतक . आवाज से फट गया और बस

अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंबे से टकराकर पलट गयी। इस घटना में श्यामविहारी (६० वर्ष), छम्मीलाल (४५ वर्ष) के शव को मर्चरी हाउस भेजा गया। टुक-ट्रेलरकी आमने सामने

संतान नहीं हो सकती स इस बात को उसके माथके वालों ने छुपाया था। जिसको लेकर परिवार में कहासुनी और कलह बढ़ गयी। इस बीच उसकी पत्नी ने अपने मायके वालों को फेन कर रात्रि में बुलाय उस समय घर में लिपिक और उसका एक भाई था बाकी लोग इधर-उधर अपने काम पर गए हुए थे। ऑटो रिकशा और मोटर

#### FINANCIAL EXPRESS

punjab nationa	lbank	"IMPORTANT"
CIRCLE ANTRA CRICLE OFFICE I NEAR BLADA BRIADAN SINH ON CORRIGEND Alterition of the concerns and gunrar public is invited No. 2. Accessed Name. Industries and column of fite please may be road as fits inste und of Res. 23,31,000- Of EMD may be road as instead of Res. 23,31,000- Other Terms. & Condition unchanged.	ONK SIRSA U M d party(les) to E-auction 2024 in Sr. W/S Shanti serve Price 60,90,000/- - in Column Ra 6,09,000-	acceptance of advertising to contents. The Indiar Express (P) Limited centre contents, nor for any loss of the contents of the contents associations or individual secondations or individual secondations of the reader resommend that reader resommend that reader before sending any norse before sending any norse agreement with advertisent or otherwise ad ling on a manner whatsown.
Donb		b national bank

Circle SASTRA, 5CO 43, 2nd Floor, Phase 2, 5 SAS Nagar (Mohali) - 160055, E-mail: cs83120 (WITHOUT PREJUDICE) Date: 27.05.20

ok Handa S/o Sh. Prem Nath Handa (Borro W/o Sh. Ashok Handa (Borrower/Mortgagor) er / Mortgagor) and Smt. Mon

af Yilo Shi, Nathar Hennar, Usernat, Haryana - 132001. use No. 1080, Sector B, Karnat, Haryana - 132001. I No. 104, Block F3, 1st Floor, Maya Garden City, Ambala Road, Zirakpur, Purija 140603. 3) House No. 1125, College Colony, Struet No. 1, Near Poonam Kirana Str Dembasis, Distinct Mohaik, Punjab.-140507. 4) House No. 101, Sector 16, Panchila, Hanyana - 134113. 5) House No. 744, Sector 14, Karnal, Haryana - 132001.

am(s). ICE UNDER SECTION 13(8) OF SARFAESI Act, 2002 READ WITH RULE IE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES AS TO SALE OF EG: NOTICE UNIT

TEVER

we genore, as per command notice dl. 10.12.2016 issued under section 13(2) of the MAPRESIAL. The Details of secured assets intended to be enforced are memorized as under: Issideriatal Tall No. 14 a Frist River Icent 28HK, Town No. 15, Maya Gastann CL, Talipur Amabia, NH- Road, Zhangar, Pumpb 140500, Boundardes, Menthe Ucen bi by 6 Campua Aces, Walker Tald C Other Under F-4, East F-14 No. 101 af Frist Friori Wash not in that as period of 30 days to propring your entire dues. The alises noting that are period of 30 days to propring your entire dues. The first section 13 are produced bound of the construction of the construction of the propulsation of the state and existing a section of the sectio

as, and y slep has been taken by the secured creditor for transfer by w t or sale of the assets before tendering of such amount under their slep shall be taken by such secured creditor for transfer before tendering of such amount in by such secured creditor for tra

e or assignment or sale of such se addresses are, therefore request d of 30 days in pursuance of Sec we drawginner for skeler i sourt skollere assest. Sources and shorten and the source of the source uction and publication of sale notice will take place in pursuance of CURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES AS TO SALE OF

AUTHORIZED OFFICER Punjab National Bank, Secured Creditor

#### TATA CAPITAL LIMITED T Registered Address: 11th Floor. Tower A. Peninsula Business Park, Ga Kadam Wang, Lower Parel, Mambai – 40011 Branch Address: 5th and Thi Floor. 11 MG Marg. Halwaniya Complex. H Future: Harrisona, Loncows.202001.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PR ROPERTY Loan Account No. 21764723 Restructured Loan A/c, No. TCFLA034700001107196 and GECL Loan A/c No. TCFLA0347000010873778: Mis Plantic World

This is to inform that Tata Capital LLA (TCL) is a non-barrier through the andler the provision of the Comparison RA: 1956 and howing its rega basenese Park, Tower A, 11th Paro, Sampata of Adam Mara, Lowe Para bandh of the american of the Comparison at Utar Produced (Pranch ). 34.11.2023, the National Company Law Tribunal INCL's IA: Parameters of Adam Section 1.2014 (Pranch ). Dergenies Jalog eithe underkäng have integrat with LLL as agent owners, he properties, seeks right, bacelit, interest, duide, obligations, labilities generation, socialities et al. 4 and 1024. In parasance of the all Cheir and the he biolity documents executed by TURSL and all outstanding in segarit here of lote a deplaced. Company and thus the TUR is and all outstanding in segarit here all be been owned in terms thread.

percenses of the term binetic term of the particle in percent and in particular to the term binetic term bin

Notice is hareby given that, in the absence of any posperament/ descritingance and popping shall be noticity E. Austron at 2.00 PAL on the said blob Day of July larging its brained holds at Bin and The Franci 111 Moley, Nationalay Compti Exister, Harentgani, Lucknow 22000. The anale E. Austrol for the portations of the property along with EHO Deman

for the purchase of the property along with EMD Demand Draft shall b yized Officer of the TATA CAPITAL LIMITED till 5.00 P.M. on the sol

Description of Secured Asset	Tige d Possession Constructive Physical	Reserve Price (Rs)	Earnest Money EMD (Rs)
PLOT ON PART OF KNARRA NO 212. AREA MERGURHOR STAAN SO. METER STUATED AT VILLAGE ALLU NAGAR, DIGURIA, PARGANA TENSIL AND DISTINCT LUCKNOW, UTTAR PRADESH22001, CONSTRUCT LUCKNOW, UTTAR PRADESH22001, CONSTRUCT SO THE PRADESH2 BOUNDED AS: EAST: PROPERTY OF BRANKATULLANS BODIOU, WEST: 25 FT ROAD, NORTH: REMAINAING LAND OF SELLER: SOUTH: PROPERTY OF OTHER PERSON.	PHYSICAL	Rs. 1,72,00,000- (Rupest One Crore Saventy Two Lakhis) Only)	Rs. 17,20,000- (Rupeet Soventisen Laktys) Twenty Thousand Only
The description of the property that will be a archites House hold inventory (1 any ) wing makes shall not be available for sale arong with secured in suction sale notion. The task will have be along costs (including the cost of the sale) are tendened sale. The public generally is invited to salem the sale shall be public generally is invited to salem. The task shall be public generally is invited to salem. The task shall be public generally is invited to salem. The task shall be public generally as invited to salem. The task shall be public generally as invited to the sale to public the statement to acquire an environment the nuise scenario sale tasks and the description of the public general the statement be acquired as the sale of the description of the public general description of the description of the public general description of the description o	and within s asset until asset until to the Auti debt, inters tender pers sale shalt, ha property NESI Act. 20	acured asset as and unless spe- ant due as afore horized Officer's stand ocsts has sonally. No offici- however, direc sold. The sale 302. The E-auct	clescribed above clically described maid, interest and or proof is given to been paid. At the er or other person, by or indirectly bid shall be subject to

property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of of Unit levering ime "TATA CAPTRL LAMTED" sysphesical Luchone, lespection of the ry may technic on 21st Day of June, 224 between 11.00 ANI to 500 PM. "The intransfits biddom may contact the Authonized Officier, M. Raj Kumar Yadav Id: raj yadav@tatecapital.com and Nabile No. +51 9253251074.

i.e., https://bi

Total income from operations (net) 5411.33 7430.92 4,928.14 Profit/(Loss) from (before Tax. Exceptional items) (45.92) 220.01 487.05 Profit/(Loss) before tax (after Exceptional items) 378.34 220.01 487.05 Net Profit/(Loss) for the period after tax 113.51 239.82 842.63 Total Comprehensive Income for the period 115.41 239.82 841.94 Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each) 1793.00 1,793.00 1,793.00 Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year) (4788.42) (6.269.30) 0.00 0.00 Earnings per share (Face value of Rs. 10)- Each) Before and After Extraordinary Items – Basic & Diluted (No annualised for quarter)

Extract of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Acc

Particulars

The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings hald on May 28, 2024. These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) (Ind AS) precicited under Section 133 of the Companies ALZ 2013 and other recognized accounting protoces and policies to be assert applicable. The Statutory Auditors of the Company have conducted an audit of these financial results for the quarter and year ended March 11, 2024, an accordance with Regulation 33 of the SEB (LISINg Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 and expressed an unmodified opinion on these results. tent applicable. The Statute the quarter and year encodigations and Disclosure ese results.

1.34

4.70

0.63

SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED CIN: L11011UP1989PL0011004 legd. Office: Plot No. B-2/5 & 2/7, UPSIDC Industrial Area Sandia Phase IV, Dist. Hardoi, Ultar Pradeah-24120 Website: www.shragangindustike.com Email ID: screetarial@bhrgangindustike.com

For the Quarter ended

Cuarter Quarter Quarter Accounting Accounting ended as on ended as on ended as on Year ended 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 as on as on 31.03.2024 31.03.2023

(Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited)

these results. The Sigures for the quarter ended March 31, 2024 are the balancing ligures between audited ligur respect of full financial year ended March 31, 2024 and the unaudited published year to date figures December 31, 2023, being the end of the shird quarter of the financial year which were subjected to lin review. The previous period figures have been regrouped, wherever considered necessary. During the current quarter as well as in the previous quarters of FY 2023-2024, there was no produ in the vanapsatirefield di unit of the company. The company has two buinters segments: Estible 01 Operations and Liquor Operations and segment results, assets and liabilities are accordingly given.

Treatme, execute only segments are executingly given. The adove is an extract of the deside format of Quarterly Financial Results field with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter financial results is available onthe Stock Exchange websites www. breindia.com, and Company Website www.shrigangindustries.com.

In line with the requirements of Regulation 46(2) § 47(2) of the Listing Regulations, 2015, the results are available on the website of BSE Limited (URL www.bseindia.com/corporates). By order of the Board For Shri Gang Industries And Allied Products Limited

WEDNESDAY, MAY 29, 2024

ounting Year ended March 31, 2024 (Rs. in Lakhs)

For the Year ended

28920.23 13,925.20

1478.98 1.315.99

1793.00 1,793.00

1526.55

1950.81

1480.88

8.25

(Audited)

960.41

960.41

1,315.30

8.65

43

Place: New Delhi Date: 28.05.2024

Registered Officer 27845, C-37, 6-Block, Enolder Korels, Bender (E), Band Registered Officer 27845, C-37, 6-Block, Enolder Korels, Bender (E), Band Mitschlenk Rahmeler Bank 134, 7th Floce, Plot Na. 7, Sector -- 135, Nr. Del Compare, Whereas. The Undersigned Bairs The Authorized Office Securitization And Reconstruction Of Financial Assets As 54 OF 2012) And In Exercise Of Powers Conterned Und Society Interest Enforcement/ Publics 2012 based Den

Name Name Co-Borrow Ravi Sin Vegré, J 1998L S 11,38,950

Thousan Shri Bali & Herrial Chaudh

Conference 2012 Conference 201

Asset Program Ony). (2000) In: 27.85.2024, Pier: Uther Prodesk Fer Rick Balandre Bark Dd., Achected Of For any quary please Contractfit. Shallonder Singh (+ 919511838929) & Mr. Arvitedkamar Tivenry (+ 919510698044)



	क आफ़ इंडियां BO	Vibhuti Khand, Gomti cknow-226010, Ph.:052	Nagar, 22-2721512		TICE
aut der put day	NOTICE U/S 13 (2) OF THE SECUR FINANCIAL ASSETS AND ENFORCE exercise of the power conferred upon und horised officer of Bank of India issued Dema mand notice were sent through regd. Post in alication following borrowers/guarantee a of this notice. Further the borrowers/guarantee and with Sale-porchase of the following proper-	EMENT OF SECURIT er section 13(2) for SA nd Notice to the followin the respective residentia re inform to pay all their hors in particulars and p ies which are kept us as	Y INTERE RFAESI A g borrower address./ debts mer ublic in gen ecurity.	ST ACT, CT, 2002 s/guaranto Again by vi tition below	2002 being the ars and the rtue of this v within 60
S. No.	Name & Address of the Borrowers & Guarantors	Description of Imm property mortga Owner of the pro	ged /	in the Not	(as mentioned ice uis 13(2) mand Notice
	BRANCH: Gomti Nagar		03/3101	0000000	
1	Borrower: M/s Royal, Prop. Mr. Naven Havelia, R/o C 8/70, Jankipuram Extension, Lucknow-256021. Proprietor: Mr. Naveen Havelia, R/o House No. B-3/447, Vishwas Khand Gomti Nagar, Opp. Nehru Enclave,	EQM of residential situated at House No Vishwas Khand Gor Lucknow, Area: 360.0 Owner: Aditya S Havelia and Mr.	with further interest, thereon (@13% p.a. compounded with Monthly rests, and all cost 21.05.2024		
	Lucknow-226010. Guarantor: Aditya Swaroop Havelia S/o Jyoti Swaroop Havelia, R/o House No. B- 3/447, Vishwas Khand Gomti Nagar, Opp. Nehru Enclave, Lucknow-226010.	Havelia, Boundarie 9.00 Mtr. wide Road Park. West: Plot No North: House No South: 9.00 Mtr. wide			
of se fro as	arges etc. failing which, we Bank of India will the said Act against all or any one or more of cured assets of the borrowers and sale there m transferring either by way of sale/lease etc sets, Please note than no further Demand No	I the secured Assets inc of. Further you are proh and encumber in any o tice will be issued.	uding takin ibited U/s 1 liher way, th	g possess 3(13) of th ie aforesai	ion of this e said Act d secured
Da	te: 29.05.2024, Place: Lucknow	Aut	norised Of	ticer, Ban	k of India
E	An export House Reco Regd. & Head Office : A-1 Indus Ph : 0542/2370181-64(4ines) E-mail act of Statement of Stand Alone Audited Financial Re	gnised by Government strial Estate, Varanas rksingh@banarasbead.or	of India) -221106 =	anne constante Bibblinvesti	or.com
SI.	DISTINCT INC.	Ended	Date	Ended	Ended
Na.	PARTICULARS	and in the second s	31.03.2024	provided as back in the twenty	31.03.2023
		Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	868.51	2821.99	880.87	2696.94
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before t		1000	10000	
	Exceptional and/or Extraordinary items)	105.17	368.62	79.52	341.55
3.	Net Profit / (Loss) for the period before ta				
	Exceptional and/or Extraordinary items)	105.17	368.62	79.52	341.55
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax				
	Exceptional and/or Extraordinary items)	76.63	275.08	57.31	254.34
5.	Total comprehensive income for the peri-	od			

e "Star House"

DEMAND

prising profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)) Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown he Audited Balance Sheet of the previous year 4622.45 4622.45 4501.89 4 ming Per Share (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted 1.15 4.15 0.86 Sd/ Arun Kumar Sharma Whole Time Director

a. Learning the share (or test, for each) basic & billioned 1, 15 4, 15 0, 56 5, 55 5, 50 5,

By order of the Board For BANARAS BEADS LTD. Sd/-(ASHOK GUPTA) an & Managing Director Chair

76.63 275.08 57.31 254.34 661.41 661.41 661.39 661.41

4501.89

3.83

Place : VARANAS



Registered Office: KM 25/4, Kalpi Road, Rania, Kanpur Dehat-209304 CIN: L17119UP1981PLC005212

E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http://www.frontiersprings.co.in

Tel. No. 05111-240212-213, 0512-2691207-08, Fax No. 0512-22691209 EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st March, 2024

			(H	s. in lakns,	except per i	snare data)
	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
S. No.		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	4414.39	3302.42	2915.20	13541.48	10735.56
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	674.42	430.60	287.04	1746.96	977.29
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax *	505.08	322.11	217.04	1298.61	724.06
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	533.10	407.02	210.72	1521.60	764.30
5	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	396.32	396.32	396.32	396.32	396.32
	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance sheet of currentPrevious year)	24	12	10	8534.54	7072.02
7	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each)					
	(a) Basic (Rs.)	13.54	10.33	5.35	38.63	19.41
	(a) Dikited (Rs.)	13.54	10.33	5.35	38.63	19,41
	* Not annualised.					

NOTES: 1. The above Un-Audited financial results have been reveiwed and recommended by Audit

committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 09-02-2024. 2. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financial results for the quarter ended

31st Dec., 2023 as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements ) Regulations, 2015.

 This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards), Rules ,2015 as amended, and prescribed under Section 133 of the Companies Act, read with the relevant rules issued thereunder.

The Previous Periods figures have been regrouped/ reclassified wherever considered necessary to conform to current period's classification/ disclosure.

5. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also on the Company's 'website www.frontiersprings.co. in .

> For and on behalf of the Board of Directors Kundan Lal Bhatia (Chairman Cum Managing Director) DIN:00581799

Date : 27.05.2024 Place : Kanpur

financialexp.epapr.in

Lucknow

Calling Lalon The Helpotchin In Al Costs, Chargin Ard Span- except Of The Same. The Said tobic Is Hondroy Koren To The Bo di Has Taken Prosessors Of To On-Him Uniter Section 1334 (U) AccyvVIII. The Bornaves th P The Proposition Activity Dealers In Resport Of The Annual Spane. An engineering the Statement Affect Property, Cablanding Dues. In we Uniter, Data Of Processors	nee Til Actual Dat Romower(S) Co. Bu rowers' Co. Sorrow he Property Descr The Said Act RW I andouer And Public With The Properties And Therein With F tion is invited To Pro to Robert The See Summark Nettions: S is Given Hanse Balo	I Of Payment straventS) Here ets And The P bed Hereunde Rate 8 Of The In General Are Will be Subjecture interest, second status and Asaets 1 on Under Sec 8;	Within 60 Days From Ing Failed To Repay Julie In General That is Exercise Of Po- Said Pules On The D Haneby Quadroned N et To The Grange Of Costs And Otarges / Section (II) Of Sectio Jetais Of The Borrow don 13(2) And Ano	The The The wers Arises conto could from an 13 sers, serts
And Address Of The Borrower, In Lase Account No. Loss Assount			ession 2. Type of Pusses on Date & Amount Day in	
Initian ALL 55, Mandri Ko Popora, Narya Janni, Utar Prasi Indra Pal Singh AE 55 Ulatives ex. Anema Utar Prasies, 2540 em Devi AE Mandri Ke Per Luin, Nagra, Jhanes, Utar Para A Anema Enterprises AE: Income Control (1998) A Anoma 2003/2011 Loan Annund: -Rippens Eleven Liah Toriyi Nentrandrud Fity/KiraChiny, 1 Jammiers & Racht Soni/Mill Sani ALL AF: 2014 Mohale of ryana, Jailasan, Utaraipen	degh. The Immov ecan One Pot Pa (56.3.3155: Total / sche, FLLE 116. lech, S i t = a t 1411 Mahaveena Sam Tables & T bace Boundanes. Rs. Gargamen / Eight Pa; Segh South Khed Dat piece and parce	able Property k Of Anal No. Ives 1250 Sq. 17 Sq. Min e d A t spus Nagar, Nerict Jeans East House Of Nerth, Rasta, JOhnes 1 23 J05 202. 2 Symbolic 1 2 Symbolic 1	2 Symbolic Peases 3 28 12 2023 4 Rs 9 34 12 (Rupees Nice 1 Think Four Thou Destructional Fifty Todystee and pay as of 06 112023 upplicable Interest 10, 11 2023 a payment in full 4 Cossession	5.3./- Laikh namd hrew nittle with from

Characterization, C. S. 2019, S. 201